

**प्रेस नोट दिनांक 27.05.2022**

**थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।**

**थाना प्रेमनगर #bareillypolice द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो मो0सा0 व अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक प्रेमनगर के नेतृत्व में गठित टीम उ0नि0 मोहित चौधरी, उ0नि0 मो0 अफसर खलील, हे0का0 893 इरशाद हुसैन, कां0 2882 मनीष, कां0 3741 सचिन के द्वारा चोरी की मोटर साइकिल जो बेचने के लिए लेकर जा रहे थे । पुलिस टीम के द्वारा नर्सरी मार्ग ऊधौ नर्सरी से लगभग कुछ कदम की दूरी पर वाहन चैकिंग के दौरान दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है। पकड़े गये अभियुक्त क्रमशः 1. हसनैन पुत्र शमसुद्दीन नि0 लाडपुर थाना हाफिजगंज जनपद बरेली को चोरी की गयी TVS अपाचे 160 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP 25 CA 5504 अंकित है, एक अदद नाजायज तमन्चा व कारतूस 12 बोर तथा अभियुक्त 2. चांद बाबू पुत्र बुन्दन बख्श नि0 लाडपुर सैथल थाना हाफिजगंज जनपद बरेली चोरी की गयी मोटर साइकिल हीरो होण्डा सीडी डिलैक्स रजि0 नं0 UP 13 P 4152 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP 25( शेष अंक मिटाये हुये ) व एक अदद नाजायज तमन्चा मय कारतूस 12 बोर सहित बरामद किया गया । अभियुक्तगण मोटर साइकिल चोरी करके उसके इंजन नम्बर चेचिस नम्बर को हैमर कर देते है तथा दूसरी गाड़ी की नम्बर प्लेट तैयार कर उस गाड़ी में लगा देते हैं, जिससे पकड मे न आये । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. हसनैन पुत्र शमसुद्दीन नि0 लाडपुर थाना हाफिजगंज जनपद बरेली ।
2. चांद बाबू पुत्र बुन्दन बख्श नि0 लाडपुर सैथल थाना हाफिजगंज जनपद बरेली ।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1. मु0अ0सं0 174/2022 धारा 411/413/414/420/467/468/471 IPC ।
2. मु0अ0सं0 175/2022 धारा 3/25 ARMS ACT ।
3. मु0अ0सं0 176/2022 धारा 3/25 ARMS ACT ।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. TVS मोटर साइकिल APACHE 160 आर सफेद रंग ( इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर मिटाये हुये, फर्जी नम्बर प्लेट UP 25 CA 5504)
2. मोटर साइकिल हीरो होण्डा सीडी डिलैक्स सिलवर रंग रजि0 नं0 UP 13 P 4152 जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट UP 25 ( शेष अंक मिटाये हुये )
3. दो अदद तमन्चे नाजायज 12 बोर मय दो जिन्दा कारतूस ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. उ0नि0 मोहित चौधरी थाना प्रेमनगर जिला बरेली ।
2. उ0नि0 अफसर खलील थाना प्रेमनगर जिला बरेली ।
3. हे0का0 893 इरशाद अहमद थाना प्रेमनगर जिला बरेली ।
4. कां0 2882 मनीष थाना प्रेमनगर जिला बरेली ।
5. कां0 3741 सचिन थाना प्रेमनगर जिला बरेली ।